



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

25 भाद्र 1936 (श0)  
(सं0 पटना 756) पटना, मंगलवार, 16 सितम्बर 2014

---

सं0 08/आरोप-01-134/2014, सां0प्र0-11405

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

19 अगस्त 2014

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री रामशंकर सिंह, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक-387/2011 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना सम्प्रति अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, रोहतास के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के द्वारा पत्रांक-174/गो० दिनांक 09.06.2010 से प्रतिवेदित आरोप जिसमें वर्ष 2008-09 में सिकरहना अनुमंडल में राशन एवं किरासन कूपन वितरण नहीं कराना, सर्वेक्षण सूची के आधार पर राशन किरासन वितरण करवाना, वितरण से संबंधित भ्रामक प्रतिवेदन भेजना, राशन एवं किरासन कूपन वितरण में सरकारी निदेश का उल्लंघन करना एवं कार्य में अभिरुचि नहीं लेना तथा पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने का गंभीर आरोप है, जैसा कि अनुलग्नक आरोप प्रपत्र "क" में वर्णित है, जिसपर विधिवत जाँच की आवश्यकता है।

2. अतएव श्री रामशंकर सिंह, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक-387/11 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना सम्प्रति अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, रोहतास के विरुद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट सभी आरोपों की सम्यक् जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विहित रीति से जाँच करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने स्तर से किसी अधीनस्थ वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर

संचालन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना को सूचित करेंगे।

4. श्री रामशंकर सिंह, (बि०प्र०से०), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना सम्प्रति अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, रोहतास से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना उन्हें अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाये।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 756-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>